

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने मेयर की COVID-19 सीनियर स्पोर्ट टास्क फोर्स की घोषणा की

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (18 मार्च, 2020) – आज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने स्थानीय अर्थव्यवस्था और कमजोर समुदायों को सहयोग देने के लिए अपनी तीसरी विशेष टास्क फोर्स: मेयर की COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी.-19) सीनियर्स स्पोर्ट टास्क फोर्स (Seniors Support Task Force) की घोषणा की।

इस टास्क फोर्स के को-चेयर, वार्डस 7 और 8 के रीजनल काउंसलर पैट फोर्टिनी (Pat Fortini) और वार्डस 9 और 10 के रीजनल काउंसलर गुरप्रीत ढिल्लों (Gurpreet Dhillon) होंगे। विशेष रूप से तैयार की गई यह टीम, उन जानकारियों और संसाधनों तक पहुंच में तालमेल करने में मदद करेगी, जिनकी ब्रैम्पटन के बुजुर्गों के इस समय के दौरान सबसे अधिक जरूरत है।

यह ग्रुप, COVID-19 के बढ़ने से पहले ही प्रभावी प्रतिक्रिया का प्रबंध करने के लिए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के एमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर (Emergency Operations Centre) और सिटी के स्टाफ के साथ मिलकर काम करेगा।

आज की घोषणा, बीते कल मेयर की COVID-19 इकोनॉमिक स्पोर्ट एंड रिकवरी (Economic Support and Recovery) और सोशल स्पोर्ट टास्क फोर्सिज (Social Support Task Forces) की शुरुआत के बाद की गई है। इस बारे में [यहां \(here\)](#) और पढ़ें।

हमारे साथ जुड़ें

जो लोग COVID-19 से राहत के हमारे प्रयासों के समर्थन में अपनी भूमिका निभाना और मदद करना चाहते हैं, वे ईमेल द्वारा हमारे साथ जुड़ सकते हैं:

- मेयर की COVID-19 इकोनॉमिक स्पोर्ट एंड रिलीफ टास्क फोर्स (Economic Support and Relief Task Force) - Covid19business@brampton.ca
- मेयर की COVID-19 सोशल स्पोर्ट टास्क फोर्स (Social Support Task Force) - Covid19support@brampton.ca
- मेयर की COVID-19 सीनियर्स स्पोर्ट टास्क फोर्स (Seniors Support Task Force) - Covid19seniors@brampton.ca

सिटी की सेवाओं के बारे में बिल्कुल ताज़ा जानकारी और अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (FAQs), और फेसिलिटी और प्रोग्रामिंग बंद होने के बारे में जानकारी के लिए, कृपया वेबसाइट: www.brampton.ca/covid19 पर जाएं।

पील पब्लिक हेल्थ द्वारा दी जाने वाली ताज़ा जानकारी के लिए: www.peelregion.ca/coronavirus पर जाएं।

हवाला

“हालांकि ब्रैम्पटन के निवासियों और कर्मचारियों को सुरक्षित रखने के लिए सिटी हॉल बंद रहेगा, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए काउंसिल लगातार काम कर रही है कि हम स्थानीय अर्थव्यवस्था और हमारे कमजोर समुदायों को सहयोग देने के लिए साथ मिलकर काम रहे हैं। यह नई टास्क फोर्स सुनिश्चित करेगी कि हम ग्राहकों की खरीदारी करने और दवाईयां लेने में ब्रैम्पटन के बुजुर्गों की

सहायता करने पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। अपने स्टैकहोल्डर्स के साथ मिलकर, हम ब्रैम्पटन में COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca